



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2008 (अग्रहायण 29, 1930)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20—DECEMBER 26, 2008 (AGRAHAYANA 29, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 दिसम्बर 2008

सं. डीपी/पर्स-1/2008/165/3/36/95-पर्स.1--राष्ट्रपति ने श्री एस.  
पी. एस. दत्ता, पुलिस उपाधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली को  
नोशनल आधार पर दिनांक 24.07.2006 से अगले आदेश तक केन्द्रीय  
अन्वेषण ब्यूरो में अपर पुलिस अधीक्षक के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. जे. एम. गिलानी  
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2008

सं. ओ-दो-3703/06-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी  
द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. मुकेश कुमार,  
चिकित्सा अधिकारी, (इरला-6968), 126 बटालियन के.रि.पु.बल द्वारा  
दिनांक 03.11.2008 (अपराह्न) को कार्यभार सौंप दिया गया। तदनुसार

इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 03.11.2008 (अपराह्न) से  
हटाया गया है।

रणजीत सिंह

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 नवम्बर 2008

सं. ई-28017/1/नोटि/2008/कार्मिक-II/1735--अधिवर्षिता की आयु  
पूरी होने पर निम्नलिखित अधिकारियों ने सरकारी सेवा से उनके नाम के  
सामने दर्शाई गई तिथि को संबंधित के.औसुब इकाई से अपने पद का  
कार्यभार छोड़ दिया है:--

| क्र. | नाम           | पदनाम         | तिथि                    | इकाई        |
|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|
| सं.  |               |               |                         |             |
| 1    | 2             | 3             | 4                       | 5           |
|      | श्री/श्रीमती  |               |                         |             |
| 1.   | के. के. शर्मा | उप कमान्डेन्ट | 31.10.2008<br>(अपराह्न) | गेल विजयपुर |

| 1  | 2                 | 3                      | 4                       | 5                   |
|----|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
|    | श्री/श्रीमती      |                        |                         |                     |
| 2. | पी. को. विशवास    | सहायक कमान्डेन्ट/अग्नि | 31.08.2008<br>(अपराह्न) | एफएसडीपीपी<br>फरवका |
| 3. | पी. एन. चतुर्वेदी | सहायक कमान्डेन्ट       | 31.10.2008<br>(अपराह्न) | एनएसपीसीएल<br>भिलाई |

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केऔसुब

महानिदेशालय

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

नई दिल्ली-110037, दिनांक 7 नवम्बर 2008

नं. ई-303/08/2008/एन.एस.जी./8465--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री पी. सी. रस्तोगी, सी.एस.एस. (75), वित्त सलाहकार, के.रि.पु.बल एवं निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (संयुक्त सचिव स्तर) की प्रतिनियुक्ति अवधि को 12.10.2008 से आगे 31.01.2010 तक अर्थात् उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

(प्राधिकार-गृह मंत्रालय आदेश सं. ए.-12011/7/2002-कार्मिक-II दिनांक 17.10.2008)

सुधाकर उपाध्याय  
ग्रुप कमांडर (स्थापना)

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 5 दिसम्बर 2008

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-176--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लेखापरीक्षा अधिकारी कैंडर में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड 2, जिसमें रु. 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, में दिनांक 01.12.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं:-

1. श्री नरेश कुमार
2. श्री आशीष मित्रा

अतूर्वा सिन्हा  
उप-निदेशक (प्रशासन)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2008

सं. ए-32014/6/2006-संवर्ग--राष्ट्रपति, इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "सी" आशुलिपिक श्री राजेन्द्र प्रसाद को दिनांक 11.11.2008 (पूर्वाह्न) से रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में वर्ष 2005 की चयन सूची में वरीयता कोटे में पूर्ति प्रभाग में आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

परमजीत सिंह  
अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

फिल्म प्रभाग

मुंबई-400026, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

सं. ए-32014/2/2008-सि.-I--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी, श्री एन. पी. रेवनकर, सहायक छायाकार, फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली, को पदोन्नति के आधार पर, छायाकार वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-, संशोधित रु. 9,300--34,800/- का PB-2 ग्रेड पे रु. 4,200/- के वेतनमान में उसी कार्यालय में दिनांक 19 नवम्बर 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

वी. एस. नार्वेकर  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी  
कृते मुख्य निर्माता

सं. ए-32014/2/2008-सि.-I--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी, श्री अतुल गौतम, सहायक छायाकार, फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली, को पदोन्नति के आधार पर, छायाकार वर्ग 'ख' राजपत्रित के पद पर पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-, संशोधित रु. 9,300--34,800/- का PB-2 ग्रेड पे रु. 4,200/- के वेतनमान में उसी कार्यालय में दिनांक 17 नवम्बर 2008 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

वी. एस. नार्वेकर  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी  
कृते मुख्य निर्माता

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 18 नवम्बर 2008

सं. पीडी/7(3)/2008/भर्ती-IV/एसओ(सी)/10290--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 5,400/- में (संशोधन पूर्व रु. 8,000-375-13,500/- के वेतनमान) दिनांक 01 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम          | वर्तमान पद |
|----------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                       | 3          |
| 1.       | श्री भास्कर भगवान धोतरे | एसए/डी     |
| 2.       | श्री राजेश कुमार सचान   | एसए/डी     |
| 3.       | श्रीमती पुष्पा मुत्तैया | एसओ/एसबी   |

| 1   | 2                               | 3        |
|-----|---------------------------------|----------|
| 4.  | श्री मंगेश मधुकर कोर्लेकर       | एसओ/एसबी |
| 5.  | श्री जयगोपाल विनोद कुमार        | एसए/सी   |
| 6.  | श्री बोर्डि रमेश                | एसए/सी   |
| 7.  | श्री सुकुमारन राधा सन्तोष कुमार | एसए/सी   |
| 8.  | श्रीमती दिप्ती जयेश शहा         | एसओ/एसबी |
| 9.  | श्रीमती सुरेखा उदय साने         | एसओ/एसबी |
| 10. | श्री मंगेश पंढरी वासनिक         | एसए/डी   |
| 11. | श्री संजय प्रभाकर सोमकुवर       | एसए/डी   |
| 12. | श्रीमती सुमती सुरेश             | एसओ/एसबी |
| 13. | श्रीमती संगीता जगदीश केणी       | एसए/डी   |

न. द. शर्मा  
नियंत्रक

सं. पीडी/7(4)/2008/भर्ती-IV/एसओ(डी)/10292--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री राजेन्द्रकुमार शिवनारायण अग्रहरी, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी ग्रेड 'ए', पे बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- (संशोधन पूर्व रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान) को उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी ग्रेड 'बी' के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- (संशोधन पूर्व रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान) में, इसी अनुसंधान केन्द्र में 1 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

न. द. शर्मा  
नियंत्रक

सं. पीडी/7(4)/2008/भर्ती-IV/एसओ(डी)/10292--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 6,600/- में, (संशोधन पूर्व रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान) दिनांक 01 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:--

क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पद  
सं.

| 1  | 2                             | 3      |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | श्री नंदकुमार धोंडीराम पाटणकर | एसओ/सी |
| 2. | श्री सुहास शशीकांत कुंभारे    | एसओ/सी |
| 3. | श्री ब्रजमोहन शर्मा           | एसए/ई  |
| 4. | श्री राजेश कुमार मिश्र        | एसओ/सी |

| 1   | 2                              | 3      |
|-----|--------------------------------|--------|
| 5.  | श्री जगन्नाथ पांडुरंग नार्वेकर | एसओ/सी |
| 6.  | श्री श्रीप्रसाद बी.            | एसओ/सी |
| 7.  | श्री स्वामिनातन रामचन्द्रन     | एसए/ई  |
| 8.  | श्री विवेका नंद झा             | एसओ/सी |
| 9.  | श्री शास्त्रकार रमेश शंकर      | एसओ/सी |
| 10. | श्री शिन्दे मच्छिंद्र जगतराव   | एसओ/सी |
| 11. | श्री पल्लपोतु राम मोहन राव     | एसओ/सी |
| 12. | श्रीमती सुगंधी सुरेश           | एसओ/सी |
| 13. | श्री बिन्दुमादवन सुरेश         | एसओ/सी |
| 14. | श्री एम. कुमार                 | एसए/ई  |
| 15. | श्री पी. सुन्दर राजन           | एसओ/सी |
| 16. | श्री रामकुमार स्वामिनातन       | एसए/ई  |
| 17. | श्रीमती के. आर. श्रीदेवी       | एसओ/सी |
| 18. | श्री विपिन चन्द्र              | एसए/ई  |
| 19. | श्री तुषार विश्वनाथ सपकाल      | एसओ/सी |
| 20. | श्री महालिंगम तामरैसेलवन       | एसओ/सी |
| 21. | श्री दत्तप्रसाद रावजी प्रभू    | एसओ/सी |
| 22. | श्री शिरिष अरविंद नाडकर्णी     | एसओ/सी |
| 23. | श्री संजीव खासनबीश बैनर्जी     | एसओ/सी |
| 24. | डॉ. आहिर विजय तुलशीराम         | एसओ/सी |
| 25. | डॉ. टी. एस. सुधीर              | एसओ/सी |
| 26. | श्री एम. के. चटर्जी            | एसओ/सी |
| 27. | डॉ. सुनिल सी.                  | एसओ/सी |
| 28. | श्रीमती रेखा अनिलकुमार         | एसए/ई  |
| 29. | श्री चंद्रहास शिवानंद पावस्कर  | एसओ/सी |
| 30. | श्री शिरिष केशव पोल            | एसओ/सी |
| 31. | श्री पंडित दत्तात्रय चव्हाण    | एसओ/सी |

न. द. शर्मा  
नियंत्रक

सं. पीडी/7(5)/2008/भर्ती-IV/एसओ(ई)/10293--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'ई' के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 7,600/- में (संशोधन पूर्व रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान), दिनांक 01 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से, सर्वश्री अरूण कुमार सोम, क्रम संख्या 43, एवं अतुल त्यागी, क्रम संख्या 44 जिनकी नियुक्ति तिथियां क्रमशः 4 फरवरी, 2008 एवं 11 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से हैं,

को छोड़कर, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:--

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम                      | वर्तमान पद |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                   | 3          |
| 1.       | श्री पवन दिनानाथ मल्लाह             | एसओ/डी     |
| 2.       | श्री एम सुब्रमणियम                  | एसओ/डी     |
| 3.       | श्री प्रकाश तुकाराम पोफलकर          | एसए/एफ     |
| 4.       | श्री अशोक कुमार                     | एसओ/डी     |
| 5.       | श्री विजय हरिलाल पटेल               | एसए/एफ     |
| 6.       | श्री मणपेट्टी बालकृष्णन प्रेमदास    | एसओ/डी     |
| 7.       | श्री राजशेखर अय्यर                  | एसओ/डी     |
| 8.       | श्री सुदेश शांताराम पंडित           | एसओ/डी     |
| 9.       | श्री विश्वास शरदचंद्र पांढरीपांडे   | एसओ/डी     |
| 10.      | श्री ब्लांघाट नारायणन दिलीप         | एसओ/डी     |
| 11.      | श्री मूल्या लिंगप्पा लोकु           | एसओ/डी     |
| 12.      | श्री राकेश वशिष्ठ                   | एसओ/डी     |
| 13.      | श्री श्याम व्यास                    | एसओ/डी     |
| 14.      | श्री गोवधमापुथन बलरामन              | एसओ/डी     |
| 15.      | श्री रामकृष्ण हरिहर सुब्रमणियम शंकर | एसओ/डी     |
| 16.      | श्री दीपक नारायण जोशी               | एसओ/डी     |
| 17.      | श्री सतीश गोपिनाथ राहुकर            | एसओ/डी     |
| 18.      | डॉ. (श्रीमती) सरिता विजय केदारे     | एसओ/डी     |
| 19.      | श्री अवधुत मनमोहन बाघ               | एसओ/डी     |
| 20.      | श्री वी एम सुधीन्द्रन               | एसओ/डी     |
| 21.      | श्री मुरुगन वी                      | एसओ/डी     |
| 22.      | श्री सुरेश चन्द शर्मा               | एसओ/डी     |
| 23.      | श्री ए. तंगवेलु                     | एसओ/डी     |
| 24.      | श्री रुद्र प्रकाश शर्मा             | एसओ/डी     |
| 25.      | श्री पारस नाथ राम                   | एसओ/डी     |
| 26.      | श्री शिरीष दत्तोपंत डोगमाने         | एसओ/डी     |
| 27.      | श्री विनोद सोपन वीर                 | एसओ/डी     |
| 28.      | डॉ. परमसिवम आनंद                    | एसओ/डी     |
| 29.      | श्री एच नारायणा                     | एसओ/डी     |
| 30.      | श्री के. एन. मंजुनाथ                | एसओ/डी     |
| 31.      | श्री नरसिंहन वेंकटसुब्रह्मण्यन      | एसओ/डी     |

| 1   | 2                                 | 3      |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 32. | श्री विजयकुमार नारायण पिल्लै      | एसओ/डी |
| 33. | श्री शिंदे स्वामीराव नामदेव       | एसओ/डी |
| 34. | डॉ. आनंद रामन                     | एसओ/डी |
| 35. | डॉ. हरिदास गोपालकृष्णन नायर       | एसओ/डी |
| 36. | श्री दीपक सखाराम जोशी             | एसओ/डी |
| 37. | श्री हरिकुमार एम                  | एसओ/डी |
| 38. | श्री राजीव कुमार गोयल             | एसओ/डी |
| 39. | श्री माविनकरे नरसिंह गिरिधर गोपाल | एसओ/डी |
| 40. | श्री कोटारात नाडुविल हरीन्द्रन    | एसओ/डी |
| 41. | श्री वड्लमानि पेरय्या             | एसओ/डी |
| 42. | श्री छोटे लाल साहू                | एसओ/डी |
| 43. | श्री अरूण कुमार सोम               | एसए/एफ |
| 44. | श्री अतुल त्यागी                  | एसओ/डी |
| 45. | श्री पद्मकुमार श्रीकंटन नायर      | एसओ/डी |
| 46. | श्री आर. राजामोहन                 | एसओ/डी |

न. द. शर्मा  
नियंत्रक

दिनांक 6 दिसम्बर 2008

सं. 93/अधि./स्था.।ए/130052--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :--

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम                | कार्यभार त्यागने का पद | पदत्याग करने की तारीख | घटना       |
|----------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 1        | 2                             | 3                      | 4                     | 5          |
| 1.       | श्री पी. उणिकुमारन            | वै.अ./डी               | 08.08.2008            | मृत्यु     |
| 2.       | डॉ. एस सरावन्न                | वै.अ./सी               | 08.10.2008 (अप.)      | त्यागपत्र  |
| 3.       | श्री मलय कुमार पाल            | वै.अ./एफ               | 08.10.2008 (अप.)      | त्यागपत्र  |
| 4.       | डॉ. मयूख चक्रवर्ती            | वै.अ./इ                | 10.10.2008 (अप.)      | त्यागपत्र  |
| 5.       | श्री नलीबोथना धर्मराजू        | वै.अ./डी               | 10.10.2008 (अप.)      | त्यागपत्र  |
| 6.       | श्री बी आर. कट्टी             | वै.अ./एफ               | 31.10.2008 (अप.)      | अधिवर्षिता |
| 7.       | श्री एस. एस. ओक               | वै.अ./एच               | 31.10.2008 (अप.)      | अधिवर्षिता |
| 8.       | डॉ. के. पी. इप्पन             | वै.अ./एफ               | 31.10.2008 (अप.)      | अधिवर्षिता |
| 9.       | डॉ. इयानी कुंजापु गोपालकृष्णन | वै.अ./जी               | 31.10.2008 (अप.)      | अधिवर्षिता |

| 1   | 2                          | 3        | 4                | 5          |
|-----|----------------------------|----------|------------------|------------|
| 10. | श्री शरदचंद्र एन. लेंले    | वै.अ./एफ | 31.10.2008 (अप.) | अधिवर्षिता |
| 11. | श्रीमती गोमती आर नारायण    | वै.अ./एफ | 31.10.2008 (अप.) | अधिवर्षिता |
| 12. | श्री एस. जी. बालसुब्रमण्यम | वै.अ./ई  | 31.10.2008 (अप.) | अधिवर्षिता |

एन. डी. शर्मा  
नियंत्रक

मुंबई-400085, दिनांक 25 नवम्बर 2008

सं. पीडी/11(2)/2008/आर-III/08/10473--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती मालिनी सुरेश, सहायक लेखा अधिकारी, को दिनांक 08.09.2008 (पूर्वाह्न) से 17.10.2008 (अपराह्न) तक रु. 9,300—34,800/- के वेतनदल-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. रमेश  
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/11(2)/2008/आर-III/08/10474--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, वी. जे. रेड्डीयार, सहायक लेखाकार, को दिनांक 08.09.2008 (पूर्वाह्न) से 17.10.2008 (अपराह्न) तक रु. 9,300—34,800/- के वेतनदल-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. रमेश  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

सं. एईसी-1(1)08/6344--राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की शेष अवधि और वर्ष 2009 के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) का पुनर्गठन निम्नानुसार करते हैं:--

1. डॉ. अनिल काकोडकर, — अध्यक्ष (पदेन)  
सचिव, भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग

2. श्री पृथ्वीराज चव्हाण, — सदस्य  
राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय
3. श्री एम. के. नारायणन, — सदस्य  
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
4. श्री टी. के. ए. नायर, — सदस्य  
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
5. श्री के. एम. चंद्रशेखर, — सदस्य  
मंत्रिमंडल सचिव
6. श्री अरूण रामनाथन, — सदस्य  
वित्त सचिव एवं सचिव,  
भारत सरकार,  
वित्तीय सेवा विभाग
7. श्री शिव शंकर मेनन, — सदस्य  
विदेश सचिव
8. श्री एस. वी. रंगनाथ, — सदस्य (वित्त)  
सचिव, भारत सरकार
9. प्रो. सी. एन. आर. राव, — सदस्य  
मानद अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू  
प्रगत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र,  
बंगलौर
10. डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन, — सदस्य  
पूर्व अध्यक्ष, एईसी
11. प्रो. पी. रामाराव, — सदस्य  
पूर्व सचिव, विज्ञान एवं  
प्रौद्योगिकी विभाग
12. डॉ. एस. बनर्जी, — सदस्य  
निदेशक, भाभा परमाणु  
अनुसंधान केन्द्र, मुंबई

के. मुरलीधर  
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 30 अक्टूबर 2008

सं. पखनि-4/2/2008-भर्ती/2915--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को दर्शायी गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में वेतन बैंड पी.बी.-4, रु. 37,400-6700+ रु. 8900 ग्रेड वेतन पर वैज्ञानिक अधिकारी-जी के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं:--

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम (सर्वश्री) | वर्तमान ग्रेड   | पदोन्नत ग्रेड   | धारित स्थायी पद    | कार्यभार ग्रहण करने की तारीख |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| 1        | 2                         | 3               | 4               | 5                  | 6                            |
| 1.       | पी. सी. डाल (डॉ)          | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008                |
| 2.       | पी. एस. चट्टोपाध्याय      | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008                |

| 1   | 2                       | 3               | 4               | 5                  | 6             |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
|     | (सर्वश्री)              |                 |                 |                    |               |
| 3.  | सी. एच. रामो नायडू      | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 4.  | ए. आर. नाथ              | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 5.  | आदर्श कुमार             | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 6.  | ए. प्रेमदास (डी)        | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 7.  | सविता रोहतगी            | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 8.  | राहुल बनर्जी            | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 9.  | एच. के. साबोत           | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 10. | आर. बी. एस. शेपा राव    | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 11. | आर. एल. नरसिम्हा राव    | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 12. | जे. के. दाश             | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 13. | सी. मुरुगन              | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 14. | आर. श्रीनिवास           | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 15. | राकेश शर्मा             | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 16. | एस. के. श्रीवास्तव (डी) | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 17. | ए. एस. चावला            | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 18. | बी. एस. चिस्ट (डी)      | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 19. | के. बालचंद्रन           | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 20. | एस. टी. शेपादीनाथ       | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 21. | एस. नायक                | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 22. | वाई. कोटेश्वर राव       | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-बी (वैज्ञा.) | 01 अगस्त 2008 |
| 23. | बी. सरवनन               | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 24. | के. श्रीनिवास           | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 25. | सुरेश कुमार             | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 26. | जी. आर. गंगाधरन         | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 27. | प्रवीण कुमार जैन        | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 28. | पी. सी. पंत             | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |
| 29. | टी. हरिकृष्णन           | वैज्ञा. अधि.-एफ | वैज्ञा. अधि.-जी | ग्रुप-ए (वैज्ञा.)  | 01 अगस्त 2008 |

अंजन चाकी  
निदेशक

हैदराबाद-500016, दिनांक 06 नवम्बर 2008

पत्रादि-16/1/2004-भर्ती/खंड 1/2922--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा कृ. मियोना खार्सबोन, वरिष्ठ लिपिक (वेतन बैंड रु. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4200), पत्रादि, शिलांग को दिनांक 15 अप्रैल 2008 से

16 मई 2008 तक की अवधि हेतु इसी निदेशालय में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन बैंड रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी. के. रामचन्द्रन  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भगवान इन्फ्रास्ट्रक्चर  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 05 दिसम्बर 2008

सं. आरओसी/49354/एसटीए/560/2007-2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भगवान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स सन्नी फार्मा केम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 44/131181/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सन्नी फार्मा केम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स टक्स प्लानटोलीन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 57/131179/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टक्स प्लानटोलीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एनगलो हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 126/130109/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एनगलो हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एसार टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 648/050192/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसार टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स सीमको सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 177/088198/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सीमको सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स कॉम्पेक सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 185/088713/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कॉम्पेक सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स बॉम्बे सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 207/102304/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बॉम्बे सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स लॉग लास्टिंग सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंवाई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 227/047804/560(S)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लॉग लास्टिंग सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम्. एम. सैंदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स अश्विनी डायमंड एण्ड जेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
संख्या-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 712/0536351/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसर्ण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अशचित डायमंड एण्ड डेकॉरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैम्बर्स ब्लैक गोल्ड प्रोनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंडई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 233/086741/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1936 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्लैक गोल्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर में काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स अंबिका पल्पर्राइजिंग इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मं.बई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 723/059221/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अंबिका पल्परार्जिंग इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स थर्ड आय स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंचर्ड-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 239/104808/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स थर्ड आय स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स पोलीथीन कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
नं.बी-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 817/090012/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पोलीथीन कन्वर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स कृष्णा स्टोन वेअर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मंवाई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 248-0116811/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कृष्णा स्टोन वेअर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स स्पाईक पोलीक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंयई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 831/090270/560(5)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्पार्क पोलीक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर में काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र





क्रि मैमर्स एन्. आर. गिअर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कि मैसर्स कुमकुम सेनिटेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सेंदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स प्लेसंट मेडिका प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
संभर्-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 75/131056/560(5) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेसर्स प्लेसंट मैडिका प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स व्यंकटेश सीरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंचई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 553/087901/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स व्यंकटेश सीरमिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणं  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स किसान सीमेंट्स प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
संख्या: 400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 276/015055/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स किसान सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघाटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स सोना टायल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंబई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 572/047433/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोना वर्डल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कंपनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स लीला सीरेकॉन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मं.बं.-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 457/986089/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेसर्स लीला अग्रीकॉन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ए.स. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स प्लो-राइट सेनिटेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मंवाई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 632/049723/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) को अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि 'मैसर्स फ्लो-राईट सेनिटेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम्. एम्. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
पट्टाराम

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स कृमकृम सेनिटेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मंवाई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 479/099861/560(5)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स रॉक साल्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
संवर्द्ध-4000007, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 114/130530/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

सं. 358/121637/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि मैसर्स मेकअल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कमपनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कि मैसर्स सुचक एक्सीप्लास प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स ग्रीनवुड सर्विसस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 583/061126/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रीनवुड सर्विसस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स वीनस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
संवर्ध-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00230/020758/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बीनस प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स वर्मा एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00207/020219/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वर्मा एक्सप्लूजन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स मैकेंस प्लास्टोफॉर्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00836/017135/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैक्डॉनल्ड्स प्लास्टोफॉर्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स अरविंदो पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
संबर्द्ध-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00616/051008/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरबिंदो पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैंदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स पापाजी कृपा प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंवाई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00657/049600/560(5) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पापाजी कृपा प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विषटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स सुचक एक्सीप्लास प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मंబई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00611/051067/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

काम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स एपेक्स एफ्लाएंसिस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00572/088330/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि मैसर्स एपेक्स एप्लाइड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कि मैसर्स गणेश कॉन्प्लास्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स बॉम्बे फोम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00173/018641/560(5)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बॉम्बे फोम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स एसोसिएटेड प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंబई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00296/034427/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसोसिएटेड प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स गुजरात वीव सैक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00722/035967/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुजरात वीव सैक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स राधेश्याम प्लास्टिक्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय  
में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00278/023903/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राधेश्याम प्लास्टिक्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स क्लीन ड्रम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00733/046093/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्लीन ड्रम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स बॉम्बे हाऊस-होल्ड एण्ड इण्डस्ट्रियल प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरिंग  
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00525/017103/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बॉम्बे हाऊस-होल्ड एण्ड इण्डस्ट्रियल प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स गणेश कॉनप्लास्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00133/089635/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स अजीत कुमार प्लास्टो फ़ैब्रिक एण्ड पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के  
विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00272/023892/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अजीत कुमार प्लास्टो फ़ैब्रिक एण्ड पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स लक्ष्मणसु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00716/035102/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लक्ष्मणसु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स संजीव प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00550/014591/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स संजीव प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स देवीदयाल प्लास्टिकनिट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00672/034581/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि मैसर्स देवीदयाल प्लास्टिकनिट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स श्री सोमनाथ हार्ड-टैक पोलिमर्स इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के  
विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00623/049824/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री सोमनाथ हार्ड-टैक पोलिमर्स इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स इंटरलिक प्लास्टिक्स एण्ड फ़ाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00540/016904/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इंटरलिक प्लास्टिक्स एण्ड फ़ाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स सरस्वती बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 48/129015/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सरस्वती बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स फ्लैमिंगो टेप्स एण्ड एडेहसिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 803/117626/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्लैमिंगो टेप्स एण्ड एडेहसिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स यूनिडाईन एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 783/116168/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनिडाईन एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स कम्प्यूलॉन सिस्टम्स एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 778/111024/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कम्प्यूलॉन सिस्टम्स एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स फार्म स्पोर्ट सर्विसिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 764/107022/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि मैसर्स फार्म स्पोर्ट सर्विसिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स ग्रीनलाईफ केम-सिन्थेसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 830/95230/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रीनलाईफ केम-सिन्थेसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स कुरामिन फार्मा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 20/118282/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुरामिन फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स अलाभी फार्मा एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 10/117346/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलाभी फार्मा एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स जिंदल टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 827/093891/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिंदल टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स सबरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 824/092990/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सबरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स निम्ब्स एंटरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 734/099224/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निम्ब्स एंटरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स सूर्या फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 714/095009/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि मैसर्स सूर्या फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स खादेश पेस्टीसाईड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 168/014122/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खादेश पेस्टीसाईड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स अमित फर्टिपेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 112/013832/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अमित फर्टिपेस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स प्रभु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00632/049819/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रभु प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र



कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स रैक्सो-प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00243/024200/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रैक्सो-प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स नागपुर प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00236/023408/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नागपुर प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स नोवेल थर्मोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00262/023787/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोवेल थर्मोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स पंजाब प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00158/018186/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि मैसर्स पंजाब प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स नागुया पोलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00250/023761/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नागुया पोलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स पोली थर्मोसेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 00197/019906/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पोली थर्मोसेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स लक्ष्मी हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 355/121248/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लक्ष्मी हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं  
मैसर्स विश्व सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 483/124531/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विश्व सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं

मैसर्स सी-हॉक इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 551/057381/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सी-हॉक इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं

मैसर्स इन्वेन्टर पैस्ट कंट्रोल एण्ड हाऊस कीपिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 280/048294/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्वेन्टर पैस्ट कंट्रोल एण्ड हाऊस कीपिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स निवर्तेज फ्रेग्रन्स एंड फ्रोग्रेनसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 466/124234/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स निवर्तेज फ्रेग्रन्स एंड फ्रोग्रेनसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स इंडाई एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 240/118893/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इंडाई एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स वैकटेश्वरा रसायन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 327/121118/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वैकटेश्वरा रसायन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स कायम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 31/101743/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कायम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स मनाल इंड्युस्ट्रींग ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 455/110565/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

सं. 695/120806/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स साईकृपा हर्बलीस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

मैसर्स ओरीऑन एडवार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स क्राउन पेट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400 002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 502/122829/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्राउन पेट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स श्री कल्यानरे पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 484/121751/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री कल्यानरे पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स रेनबो सिलेन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 464/114917/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेनबो सिलेन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स ओरीऑन एडवार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 24/115021/560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
कोच्चि-682021, दिनांक 26 नवम्बर 2008

सं. एसएम 560 (3) एसएम/आरओसी/इरनाकुलम/15988/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन पास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों के नाम से इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर काट दिए जाएंगे और उक्त कंपनियां विघटित कर जाएंगी :-

| क्रम सं. | रजिस्ट्रेशन सं. | कम्पनी का नाम   |
|----------|-----------------|---|
| 1        | 2               | 3   |
| 1.       | 15038           | मैसर्स जी ई-स्टालट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 2.       | 15045           | मैसर्स ब्रह्माश्री फूड्स प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 3.       | 15046           | मैसर्स आबाद फूड्स प्राईवेट लिमिटेड                                    |
| 4.       | 15047           | मैसर्स डिजिटल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 5.       | 15051           | मैसर्स हाईफ्लेग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 6.       | 15060           | मैसर्स टर्नकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड            |
| 7.       | 15070           | मैसर्स रियल लाईफ चिट्ज प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 8.       | 15072           | मैसर्स ओरकिड होलिडेज प्राईवेट लिमिटेड                                 |
| 9.       | 15080           | मैसर्स हफीस गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                               |
| 10.      | 15087           | मैसर्स कन्नीकाट ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 11.      | 15093           | मैसर्स इल्लुमिनाटी इम्प्रोवेज प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 12.      | 15095           | मैसर्स अग्रो-हर्टिकल्चरल फार्म प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 13.      | 15097           | मैसर्स ए वी रोसिस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड            |
| 14.      | 15104           | मैसर्स टेलेंट आई टी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 15.      | 15106           | मैसर्स थोटूगल कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 16.      | 15118           | मैसर्स डॉ रॉमन मेनन हिस्टोपैथोलॉजी एण्ड क्लिनिकल लैब प्राईवेट लिमिटेड |
| 17.      | 15122           | मैसर्स ट्राफिकोन लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 18.      | 15128           | मैसर्स कोचिन सुमांगली ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 19.      | 15138           | मैसर्स अमरुथापंचाक्षरा कुरीज प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 20.      | 15145           | मैसर्स सिटिजन मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड                                 |
| 21.      | 15151           | मैसर्स एल टेक कम्प्यूटर्स एण्ड ईकोमर्ज सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड        |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 22. | 15155 | मैसर्स भून पैलेस होटल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड           |
| 23. | 15162 | मैसर्स पेन्थकॉन इण्डिया सिस्टम्स एण्ड साल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड  |
| 24. | 15164 | मैसर्स साईबरजूम टेक्नोलॉजिस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड       |
| 25. | 15192 | मैसर्स नुसरथुल अनाम ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 26. | 15195 | मैसर्स सथर्नहिमालया चिटिज प्राईवेट लिमिटेड                         |
| 27. | 15197 | मैसर्स एस एण्ड डी कोनडिमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 28. | 15202 | मैसर्स सेंडबार इंडिजिनियस हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड              |
| 29. | 15210 | मैसर्स वनडनमेडू फूड्स एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड                |
| 30. | 15213 | मैसर्स सिटे सिस्टम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 31. | 15214 | मैसर्स एम जे सी ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 32. | 15216 | मैसर्स बेनटली मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड                              |
| 33. | 15218 | मैसर्स कुमार स्प्रासिज ट्रेड एण्ड एक्सपोर्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 34. | 15222 | मैसर्स इरिटि चिट्स प्राईवेट लिमिटेड                                |
| 35. | 15223 | मैसर्स इनामलो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड                            |
| 36. | 15231 | मैसर्स प्रागनोसिस टेक्नालोजिस प्राईवेट लिमिटेड                     |

के श्रीकुमार  
सहायक कंपनी पंजीयक  
केरल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 27 नवम्बर 2008

सं. एसएम 560 (5) एस एम/आरओसी/एरनाकुलम/15984/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम रजिस्टर से काट दिये गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गयी हैं :--

| क्रम सं. | रजिस्ट्रेशन सं. | कम्पनी का नाम                                   |
|----------|-----------------|---|
| 1        | 2               | 3   |
| 1.       | 14440           | मैसर्स माट्रीक्स ओटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड    |
| 2.       | 14449           | मैसर्स चेरतला कुरीज प्राईवेट लिमिटेड            |
| 3.       | 14458           | मैसर्स कोरम नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड            |
| 4.       | 14463           | मैसर्स नेटप्रो सैबर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5.       | 14464           | मैसर्स वीनस बोन मिल प्राईवेट लिमिटेड            |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 6.  | 14469 | मैसर्स रोहिनी ग्लोबल मरकन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड            |
| 7.  | 14474 | मैसर्स कैरली इंपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 8.  | 14480 | मैसर्स क्नेट आई टी कोम प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 9.  | 14497 | मैसर्स बैट कि इज प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 10. | 14498 | मैसर्स सेंट रोज़ वेहिकिलज प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 11. | 14507 | मैसर्स उप्पला इन्फोटेक सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड         |
| 12. | 14514 | मैसर्स सी चार्ट लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड               |
| 13. | 14518 | मैसर्स मूलन्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 14. | 14520 | मैसर्स फेप मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 15. | 14525 | मैसर्स सूर्यामानसम एस्टेट्स एण्ड फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड  |
| 16. | 14526 | मैसर्स पेन्थ कॉप एण्ड सिक्यूरिटी विजन प्राईवेट लिमिटेड     |
| 17. | 14533 | मैसर्स इमनाज मोटर्स एण्ड सरविसेज प्राईवेट लिमिटेड          |
| 18. | 14534 | मैसर्स फारचून कैरियर ओप्शन्स प्राईवेट लिमिटेड              |
| 19. | 14548 | मैसर्स इन्फो कैपिटल्स प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 20. | 14570 | मैसर्स ट्रियोस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड                |
| 21. | 14572 | मैसर्स प्रोग्रेसिव नेटवर्क कनैक्शन प्राईवेट लिमिटेड        |
| 22. | 14577 | मैसर्स ट्राइस शिपिंग साउथ प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 23. | 14581 | मैसर्स ट्रेनडर्ज कुरीज प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 24. | 14585 | मैसर्स स्पलाश इंपोर्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड           |
| 25. | 14586 | मैसर्स देवीप्रिया कुरीज प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 26. | 14593 | मैसर्स कालडी कामर्सियल सिन्डिकेट चिट्स प्राईवेट लिमिटेड    |
| 27. | 14594 | मैसर्स इन्फोलोजिक्स इन्टीग्रेटेड प्राईवेट लिमिटेड          |

एस एम अमीरुल मिल्लथ  
कंपनी पंजीयक  
केरल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

सं.आरओसी/एमईएस/ 560(5)/3349--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनियां विघटित हो गयी हैं :--

| क्रम सं. | रजिस्ट्रेशन सं. | कम्पनी का नाम  |
|----------|-----------------|--|
| 1        | 2               | 3  |
| 1.       | 15-000439       | मैसर्स राउरकेला पूर्वी कारपोरेशन लिमिटेड                       |
| 2.       | 15-003208       | मैसर्स विजुल लिंक प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 3.       | 15-003237       | मैसर्स प्रीतम एन्टरप्राइजर्स प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 4.       | 15-003383       | मैसर्स कलिंगा एग्रो इकोनोमी लिमिटेड                            |
| 5.       | 15-003491       | मैसर्स जनरल इंजीनियरिंग एण्ड सांइटीफिक कं. लि                  |
| 6.       | 15-003501       | मैसर्स धारोद्री आग्रो इण्डिया लि.                              |
| 7.       | 15-003580       | मैसर्स मा भरोसा फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि.        |
| 8.       | 15-004212       | मैसर्स सेफ्टी प्वाइन्ट प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 9.       | 15-004227       | मैसर्स गणपती आईरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड                       |
| 10.      | 15-004324       | मैसर्स नाईटू एसोसीएट प्राईवेट लिमिटेड                          |
| 11.      | 15-004831       | मैसर्स बाबा फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 12.      | 15-005568       | मैसर्स इन्दरावती कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 13.      | 15-005846       | मैसर्स बिस्मा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 14.      | 15-006022       | मैसर्स सेरोफीक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 15.      | 15-007757       | मैसर्स ईलाईट क्लब प्राईवेट लिमिटेड                             |
| 16.      | 15-008338       | मैसर्स आर एण्ड आर सकल्प मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड            |
| 17.      | 15-008699       | मैसर्स ईस्टर्न कोल्ड चेन्स लिमिटेड                             |

बी मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

बेंगलूर-560034, दिनांक 20 नवम्बर 2008

सं. आरओसीबी/560(3)/टीए/जेके/एएमएस/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कंपनियां विघटित हो जाएंगी :--

| क्रम सं. | रजिस्ट्रेशन सं. | कम्पनी का नाम   |
|----------|-----------------|---|
| 1        | 2               | 3   |
| 1.       | 29459           | मैसर्स लोजिकॉम इंडिया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड             |
| 2.       | 23036           | मैसर्स रि-रियलाईस इंटरनेशनल टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड             |
| 3.       | 29050           | मैसर्स रिसोर्स मेनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड        |
| 4.       | 34364           | मैसर्स मेगना टेक कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 5.       | 18503           | मैसर्स अधावन पॉलिसेक्स लिमिटेड                              |
| 6.       | 34258           | मैसर्स स्ट्रेटिफन बिजनेस साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड         |
| 7.       | 34420           | मैसर्स बाइकोर्डिनेट एचआर कंसलटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 8.       | 34812           | मैसर्स इंफोर्मिड एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड                 |
| 9.       | 34466           | मैसर्स क्रिश्मा डायमंड्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 10.      | 34803           | मैसर्स समृद्धि लाईफ केयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड          |
| 11.      | 19293           | मैसर्स मिरेकल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड                      |
| 12.      | 32813           | मैसर्स अमेज कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड                    |

ए एम श्रीधरन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 5th December 2008

No. DP/Pers. I/2008/165/3/36/95-Pers. I.—The President is pleased to appoint Shri S. P. S. Dutta, Dy Supdt. of Police, CBI, Head Office, New Delhi to the grade of Additional Supdt. of Police in CBI w.e.f. 24.07.2006 on notional basis.

S. J. M. GILLANI  
Supdt. of Police (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 26th November 2008

No. O. II. 3703/06-CRC(MOs).—Consequent on acceptance of his resignation from service by the competent authority, Dr. Mukesh Kumar, M. O. (IRLA-6968), 126 Bn, CRPF has handed over charge on 03.11.2008 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 03.11.2008 (A.N.).

RANJIT SINGH  
DIG (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 20th November 2008

No. E-28017/1/Noti/2008/Pers. II/1042/1735.—Consequent upon retirement from service on attaining the age of superannuation, the following CISF officer relinquished the charge of the post from the date and Units as shown against each :—

| Sl. No. | Name of the GO's | Post Held                  | Date              | Unit           |
|---------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|         | S/Shri/Smt.      |                            |                   |                |
| 1.      | K. K. Sharma     | Dy. Commandant             | 31.10.2008 (A.N.) | GAIL, Vijaipur |
| 2.      | P. K. Biswas     | Asstt. Commandant/<br>Fire | 31.08.2008 (A.N.) | FSTPP, Farakka |
| 3.      | P. N. Chaturvedi | Asstt. Commandant          | 31.10.2008 (A.N.) | NSCPL, Bhilai  |

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

DIRECTORATE GENERAL  
NATIONAL SECURITY GUARD

New Delhi-110 037, the 7th November 2008

No. E. 303/08/2008/NSG/8465.—The competent authority has approved extension of deputation period in respect of

Shri P. C. Rastogi, CSS (75), Financial Adviser, CRPF and Director (Finance), NSG (Joint Secretary Level) beyond 12.10.2008 for a period upto 31.01.2010 i.e. till the date of his superannuation or until further orders, whichever event takes place earlier.

(Authy :—MHA's Order No. A.12011/7/2002-Pers. II dated 17.10.2008).

SUDHAKAR UPADHYAY  
Group Commandant (Estt.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110 002, the 5th December 2008

No. Admn. I/O. O. No. 176.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints the following Assistant Audit Officers of this office to officiate as Audit Officers in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.12.2008 (F. N.) until further orders.

1. Shri Naresh Kumar
2. Shri Ashis Mitra

ATOORVA SINHA  
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
DEPARTMENT OF COMMERCE  
(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 19th November 2008

No. A-32014/6/2006-Cadre.—The President is pleased to appoint Sh. Rajender Prasad, Stenographer Grade 'C' of CSSS of this Department to the grade of Stenographer Grade 'A&B' (merged) in Supply Division for the Select List year 2005, against the Seniority Quota in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) w.e.f. 11.11.2008 (forenoon).

2. Shri Rajender Prasad, Stenographer Grade 'A&B' (merged) of CSSS is posted in DGS&D.

PARMJIT SINGH  
Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING  
(FILMS DIVISION)

Mumbai-400 026, the 4th December 2008

No. A-32014/2/2008-Est. I.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority has promoted Shri N. P. Revankar, Assistant Cameraman, Films Division, New Delhi to the post of Cameraman (Group 'B') Gazetted in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised), revised as Rs. 9,300—34,800/- in PB-2 with Grade pay

of Rs. 4,200/-, in the Main Office, Mumbai with effect from the forenoon of 19th November, 2008 until further orders.

V. S. NARVEKAR  
Asstt. Admin. Officer  
for Chief Producer

No. A-32014/2/2008-Est. I.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority has promoted Shri Atul Gautam, Assistant Cameraman, Films Division, New Delhi to the post of Cameraman (Group 'B') Gazetted in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised), revised as Rs. 9,300—34,800/- in PB-2 with Grade pay of Rs. 4,200/-, in the same Office with effect from the 17th November, 2008 (A. N.) until further orders.

V. S. NARVEKAR  
Asstt. Admin. Officer  
for Chief Producer

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 18th November 2008

No. PD/7(3)/2008-R-IV/SO(C)/10290.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- + grade pay of Rs. 5,400/- (pre-revised scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-) in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1st, 2008, in an officiating capacity until further orders :

| Sl. No. | Name of the Officer                 | Present Grade |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| 1       | 2                                   | 3             |
| 1.      | Shri Bhaskar Bhagawan Dhotare       | SA/D          |
| 2.      | Shri Rajesh Kumar Sachan            | SA/D          |
| 3.      | Smt. Pushpa Muthiah                 | SO/SB         |
| 4.      | Shri Mangesh Madhukar Korlekar      | SO/SB         |
| 5.      | Shri Jayagopal Vinod Kumar          | SA/C          |
| 6.      | Shri Boddi Ramesh                   | SA/C          |
| 7.      | Shri Sukumaran Radha Santhosh Kumar | SA/C          |
| 8.      | Smt. Dipti Jayesh Shah              | SO/SB         |
| 9.      | Smt. Surekha Uday Sane              | SO/SB         |
| 10.     | Shri Mangesh Pandhari Wasnik        | SA/D          |
| 11.     | Shri Sanjay Prabhakar Somkumar      | SA/D          |

| 1   | 2                          | 3     |
|-----|----------------------------|-------|
| 12. | Smt. Sumathi Suresh        | SO/SB |
| 13. | Smt. Sangeeta Jagdish Keny | SA/D  |

N. D. SHARMA  
Controller

No. PD/7(4)/2008-R-IV/SO/D/10292.—The President is pleased to appoint Shri Rajendrakumar Shivnarayan Agrahari, a Dy. Chief Fire Officer 'A' in the pay band of Rs. 9,300—34,800/- + grade pay Rs. 5,400/- (pre-revised scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-) of the Bhabha Atomic Research Centre as Dy. Chief Fire Officer 'B' in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- + grade pay of Rs. 6,600/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-), in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1st, 2008, in an officiating capacity until further orders.

N. D. SHARMA  
Controller

No. PD/7(4)/2008-R-IV/SO(D)/10292.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- + grade pay of Rs. 6,600/- (pre-revised scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-) in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1st, 2008, in an officiating capacity until further orders :

| Sl. No. | Name of the Officer               | Present Grade |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| 1       | 2                                 | 3             |
| 1.      | Shri Nandkumar Dhondiram Patankar | SO/C          |
| 2.      | Shri Suhas Shashikant Kumbhare    | SO/C          |
| 3.      | Shri Brij Mohan Sharma            | SA/E          |
| 4.      | Shri Rajesh Kumar Mishra          | SO/C          |
| 5.      | Shri Jagannath Pandurang Narvekar | SO/C          |
| 6.      | Shri Shreeprasad V.               | SO/C          |
| 7.      | Shri Swaminathan Ramachandran     | SA/E          |
| 8.      | Shri Viveka Nand Jha              | SO/C          |
| 9.      | Shri Shastrakar Ramesh Shankar    | SO/C          |
| 10.     | Shri Shinde Machhindra Jagatrao   | SO/C          |
| 11.     | Shri Pallapotu Rama Mohana Rao    | SO/C          |



| 1   | 2                                  | 3    |
|-----|------------------------------------|------|
| 12. | Smt. Sugandhi Suresh               | SO/C |
| 13. | Shri Bindumadhavan Suresh          | SO/C |
| 14. | Shri M. Kumar                      | SA/E |
| 15. | Shri P. Sundar Rajan               | SO/C |
| 16. | Shri Ramkumar Swaminathan          | SA/E |
| 17. | Smt. K. R. Sreedevi                | SO/C |
| 18. | Shri Vipin Chander                 | SA/E |
| 19. | Shri Tushar Vishwanath Sapkal      | SO/C |
| 20. | Shri Mahalingam Thamaraisel Van    | SO/C |
| 21. | Shri Dattaprasad Ravji Prabhu      | SO/C |
| 22. | Shri Shirish Arvind Nadkarni       | SO/C |
| 23. | Shri Sanjib Khasnobis Banerjee     | SO/C |
| 24. | Dr. Aher Vijay Tulshiram           | SO/C |
| 25. | Dr. T. S. Sudheer                  | SO/C |
| 26. | Shri M. K. Chatterjee              | SO/C |
| 27. | Shri Sunil C.                      | SO/C |
| 28. | Smt. Rekha Anilkumar               | SA/E |
| 29. | Shri Chandrahas Shivanand Pawaskar | SO/C |
| 30. | Shri Shirish Keshav Pol            | SO/C |
| 31. | Shri Pandit Dattatray Chavan       | SO/C |

N. D. SHARMA  
Controller

No. PD/7(5)/2008-R-IV/SO(E)/10293.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- + grade pay of Rs. 7,600/- (pre-revised scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1st, 2008, except S/Shri Arun Kumar Som, Sl. No. 43 and Atul Tyagi, Sl. No. 44 whose dates of appointment are with effect from the forenoon of February 4th, 2008 and February 11th, 2008 respectively, in an officiating capacity until further orders :

| Sl. No. | Name of the Officer        | Present Grade |
|---------|----------------------------|---------------|
| 1       | 2                          | 3             |
| 1.      | Shri Pavan Dinanath Mallah | SO/D          |
| 2.      | Shri M. Subramanyam        | SO/D          |

| 1   | 2   | 3    |
|-----|---|------|
| 3.  | Shri Prakash Tukaram Pophalkar                  | SA/F |
| 4.  | Shri Ashok Kumar                                | SO/D |
| 5.  | Shri Vijay Harilal Patel                        | SA/F |
| 6.  | Shri Manappetty Balakrishnan Premadas           | SO/D |
| 7.  | Shri Rajasekhar Iyer                            | SO/D |
| 8.  | Shri Sudesh Shantaram Pandit                    | SO/D |
| 9.  | Shri Vishwas Sharadachandran Pandharipande      | SO/D |
| 10. | Shri Blangat Narayanan Dileep                   | SO/D |
| 11. | Shri Moolya Lingappa Loku                       | SO/D |
| 12. | Shri Rakesh Vashishtha                          | SO/D |
| 13. | Shri Shyam Vyas                                 | SO/D |
| 14. | Shri gowthamputhan Balaraman                    | SO/D |
| 15. | Shri Rama Krishna Hari Hara Subramaniam Shankar | SO/D |
| 16. | Shri Deepak Narayan Joshi                       | SO/D |
| 17. | Shri Satish Gopinath Raurkar                    | SO/D |
| 18. | Dr. (Smt.) Sarita Vijay Kedare                  | SO/D |
| 19. | Shri Avadhut Manmohan Wagh                      | SO/D |
| 20. | Shri V. M. Sudheendran                          | SO/D |
| 21. | Shri V. Murugan                                 | SO/D |
| 22. | Shri Suresh Chand Sharma                        | SO/D |
| 23. | Shri A. Thangavelu                              | SO/D |
| 24. | Shri Rudra Prakash Sharma                       | SO/D |
| 25. | Shri Paras Nath Ram                             | SO/D |
| 26. | Shri Shirish Dattopant Dogmane                  | SO/D |
| 27. | Shri Vinod Sopan Veer                           | SO/D |
| 28. | Dr. Paramasivam Anand                           | SO/D |
| 29. | Shri H. Narayana                                | SO/D |
| 30. | Shri K. N. Manjunath                            | SO/D |
| 31. | Shri Narasimhan Venkata Subramanian             | SO/D |
| 32. | Shri Vijayakumar Narayana Pillai                | SO/D |
| 33. | Shri Shinde Swamirao Namdeo                     | SO/D |

| 1   | 2   | 3    |
|-----|---|------|
| 34. | Dr. Anand Raman                             | SO/D |
| 35. | Dr. Haridas Gopalakrishnan Nair             | SO/D |
| 36. | Shri Deepak Saktharam Joshi                 | SO/D |
| 37. | Shri Harkumar M.                            | SO/D |
| 38. | Shri Rajeev Kumar Goyal                     | SO/D |
| 39. | Shri Mavinakere Narasimha<br>Giridhar Gopal | SO/D |
| 40. | Shri Kottarath Naduvil Hareendran           | SO/D |
| 41. | Shri Vadlamani Perayya                      | SO/D |
| 42. | Shri Chhole Lal Sahu                        | SO/D |
| 43. | Shri Arun Kumar Som                         | SA/F |
| 44. | Shri Atul Tyagi                             | SO/D |
| 45. | Shri Padmakumar Srikantan Nair              | SO/D |
| 46. | Shri R. Rajamohan                           | SO/D |

N. D. SHARMA  
Controller

The 6th December 2008

No. 93/Noti. Est. IA/130052.—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

| Sl. No. | Name of the officer         | Relinquished the charge of the post | Date of relinquishment | Event           |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1.      | Shri P. Unnikumar           | SO/D                                | 08.8.2008              | Death           |
| 2.      | Dr. S. Saravanan            | SO/C                                | 08.10.2008 (AN)        | Resignation     |
| 3.      | Shri Malay Kumar Pal        | SO/F                                | 08.10.2008 (AN)        | Resignation     |
| 4.      | Dr. Mayukh Chakrabarty      | SO/E                                | 10.10.2008 (AN)        | Resignation     |
| 5.      | Shri Nalliboyana Dharmaraju | SO/D                                | 10.10.2008 (AN)        | Resignation     |
| 6.      | Dr. V. R. Katti             | SO/F                                | 31.10.2008 (AN)        | Super-annuation |

| 1   | 2                                  | 3    | 4               | 5               |
|-----|------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 7.  | Shri S. S. Oak                     | SO/H | 31.10.2008 (AN) | Super-annuation |
| 8.  | Dr. K.P. Lappan                    | SO/F | 31.10.2008 (AN) | Super-annuation |
| 9.  | Dr. Iyyani Kunjappu Gopalakrishnan | SO/G | 31.10.2008 (AN) | Super-annuation |
| 10. | Shri Sharadechandra N. Lele        | SO/F | 31.10.2008 (AN) | Super-annuation |
| 11. | Smt. Gomathy R. Narayan            | SO/F | 31.10.2008 (AN) | Super-annuation |
| 12. | Shri S. G. Balasubramanian         | SO/E | 31.10.2008 (AN) | Super-annuation |

N. D. SHARMA  
Controller

Mumbai-400 085, the 25th November 2008

No. PD/11(2)/2008-R-III/08/10473.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Malini Suresh, Asstt. Accounts Officer, as Accounts Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 08.09.2008 (FN) to 17.10.2008 (AN).

D. RAMESH  
Dy. Establishment Officer

No. PD/11(2)/2008-R-III/08/10474.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri V. J. Reddiar, Asstt. Accountant, as Asstt. Accounts Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- with effect from 08.09.2008 (FN) to 17.10.2008 (AN).

D. RAMESH  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 4th December 2008

No. AEC-1(1)/08-6344. —The President is pleased to reconstitute the Atomic Energy Commission (AEC) for the balance period of 2008 and for year 2009 as given below :—

1. Dr. Anil Kakodkar Chairman (ex-officio)  
Secy. to the Govt. of India,  
Department of Atomic Energy
2. Shri Prithviraj Chavan Member  
Minister of State,  
Prime Minister's Office

|    |   |                    |     |  |        |
|----|---|--------------------|-----|--|--------|
| 3. | Shri M. K. Narayanan<br>National Security Advisor   | Member             | 9.  | Prof. C. N. R. Rao<br>Honorary President,<br>Jawaharlal Nehru Centre<br>for Advanced Scientific<br>Research, Bangalore | Member |
| 4. | Shri T. K. A. Nair<br>Principal Secretary to the<br>Prime Minister  | Member             | 10. | Dr. M. R. Srinivasan<br>Former Chairman, AEC   | Member |
| 5. | Shri K. M. Chandrasekhar<br>Cabinet Secretary   | Member             | 11. | Prof. P. Rama Rao<br>Former Secretary,<br>Deptt. of Science & Technology   | Member |
| 6. | Shri Arun Ramanathan<br>Finance Secretary &<br>Secretary to the Govt. of India,<br>Department of Financial Services | Member             | 12. | Dr. S. Banerjee<br>Director,<br>Bhabha Atomic Research Centre,<br>Mumbai   | Member |
| 7. | Shri Shiv Shankar Menon<br>Foreign Secretary  | Member             |     |  |        |
| 8. | Shri S. V. Ranganath<br>Secretary to the<br>Government of India   | Member for Finance |     |  |        |

K. MURALIDHAR  
Secy. to the Atomic Energy Commission

#### ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 30th October 2008

No. AMD-4/2/2008-Rect/2915.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grade of Scientific Officer-G carrying the pay band PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,900/- Grade Pay in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the dates shown against each, until further orders :—

| Sl. No. | Name of the Officer | Present Grade | Promotion to Grade | Substantive post held | Date of Assumption of Charge |
|---------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1       | 2                   | 3             | 4                  | 5                     | 6                            |
|         | S/Shri              |               |                    |                       |                              |
| 1.      | Dr. P. C. Dhal      | SO-F          | SO-G               | Group-A (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 2.      | P. S. Chattopadhyay | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 3.      | Ch. Rami Naidu      | SO-F          | SO-G               | Group-A (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 4.      | A. R. Nath          | SO-F          | SO-G               | Group-A (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 5.      | Adarsh Kumar        | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 6.      | Dr. A. Prema Das    | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 7.      | Savita Rohatagi     | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 8.      | Rahul Banerjee      | SO-F          | SO-G               | Group-A (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 9.      | H. K. Sabot         | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 10.     | R. V. S. Sesha Rao  | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 11.     | R. L. Narasimha Rao | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 12.     | J. K. Dash          | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |
| 13.     | C. Murugan          | SO-F          | SO-G               | Group-B (Sci.)        | 01.08.2008                   |

| 1   | 2                    | 3    | 4    | 5              | 6          |
|-----|----------------------|------|------|----------------|------------|
|     | S/Shri               |      |      |                |            |
| 14. | R. Srinivas          | SO-F | SO-G | Group-B (Sci.) | 01.08.2008 |
| 15. | Rakesh Sharma        | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 16. | Dr. S. K. Srivastava | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 17. | A. S. Chawla         | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 18. | Dr. B. S. Bisht      | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 19. | K. Balachandran      | SO-F | SO-G | Group-B (Sci.) | 01.08.2008 |
| 20. | S. T. Seshadrinath   | SO-F | SO-G | Group-B (Sci.) | 01.08.2008 |
| 21. | S. Nayak             | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 22. | Y. Koteswara Rao     | SO-F | SO-G | Group-B (Sci.) | 18.08.2008 |
| 23. | B. Saravanan         | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 24. | K. Srinivas          | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 25. | Suresh Kumar         | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 26. | G. R. Gangadharan    | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 27. | Praveen Kumar Jain   | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 28. | P. C. Pant           | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |
| 29. | T. Harikrishnan      | SO-F | SO-G | Group-A (Sci.) | 01.08.2008 |

ANJAN CHAKI  
Director

Hyderabad-500 629, the 6th November 2008

No. AMD-16. I/2004-Rectt./Vol. I/2922:- Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Kurn. Miona Kharrubon, Sr. Clerk (Pay Band Rs. 9,300-34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/-), AMD, Shillong as Asstt. Personnel Officer (Pay Band Rs. 9,300-34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/-) in the same Directorate on ad hoc basis with effect from the forenoon of 15.04.2008 to 16.05.2008.

C. K. RAMACHANDRAN  
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhagwan Infrastructure Private Limited

Ahmedabad-380013, the 5th December 2008

No. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00387/  
14385.- Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Bhagwan Infrastructure Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunny Pharma Chem Traders Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 44/560/131181.- Notice is hereby given pursuant to  
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,  
1956 that the name of M/s. Sunny Pharma Chem Traders  
Private Limited has this day been struck off the register and  
the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Taks Plantolin Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 57/560/131179.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Taks Plantolin Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anglo Healthcare Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 126/560/130109.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anglo Healthcare Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Esar Tiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 648/560/050192.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Esar Tiles Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Simco Cement Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 177/560/088198.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Simco Cement Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Compaq Cements Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 185/560/088713.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Compaq Cements Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bombay Cement Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 207/560/102304.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bombay Cement Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Long Lasting Cement Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 227/560/047804.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Long Lasting Cement Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Black Gold Granites Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 233/560/086741.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Black Gold Granites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Third Eye Stones Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 239/560/104808.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Third Eye Stones Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Polythene Convertors Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 817/560/090012.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Polythene Convertors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shrikrishna Stonewares Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 248/560/116811. Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shrikrishna Stonewares Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Spark Polycraft Projects Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 831/560/090270.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spark Polycraft Projects Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashchit Diamond and Decorators Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 712/560/056351.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashchit Diamond and Decorators Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sargam Latex Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 4/560/051301. Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sargam Latex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ambika Pulvrising Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 723/560/059221. Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambika Pulvrising Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Damle Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 10/560/051336.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Damle Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kacoplast Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 13/560/051638.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kacoplast Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hemsavi Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 147/560/129749.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hemsavi Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Call-Nil Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 19/560/051745.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Call-Nil Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. R. Gears Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 120/560/110015.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. R. Gears Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Julio Sandeep Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 22/560/053286.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Julio Sandeep Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pleasant Medica Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 75/560/131056.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pleasant Medica Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Li-Foong Cibebe Gas Technologies (India)  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 551/560/122677.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Li-Foong Cibebe Gas Technologies (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kisan Cement Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 276/560/015055.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kisan Cement Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Leela Ceracon Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 457/560/086089.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Leela Ceracon Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Flo-Rite Sanitation Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 632/560/049723.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flo-Rite Sanitation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kumkum Sanitation Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 479/560/099861.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kumkum Sanitation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rock Salt (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 114/560/130530.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rock Salt (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vyankatesh Ceramics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 553/560/087901.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vyankatesh Ceramics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Flow India Surgicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 531/560/128512.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flow India Surgicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sona Tiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 572/560/047433.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sona Tiles Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alies Pharma Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 405/560/122937.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alies Pharma Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hydra International (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 432/560/128703.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hydra International (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Radhe Mohan Pigments Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 383/560/122927.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Radhe Mohan Pigments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Killins Pest Control and Fumigations Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 747/560/100374.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Killins Pest Control and Fumigations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Unique Pest Control Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 257/560/022441.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unique Pest Control Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nimbus Intermediates and Drugs Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 40/560/128705.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nimbus Intermediates and Drugs Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mak'ell Pharma Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 358/560/121637.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mak'ell Pharma Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Greenwood Services (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 583/560/061126.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Greenwood Services (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Verma Extrusion Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 207/560/020219.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Verma Extrusion Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arbindo Polymers Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 616/560/051008.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arbindo Polymers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pappaji Krupa Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 657/560/049600.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pappaji Krupa Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suchak Acryplas Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 611/560/051067.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suchak Acryplas Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apex Appliances Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 572/560/088330.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Apex Appliances Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Venus Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 230/560/020758.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venus Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bombay Foam Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 173/560/018641.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bombay Foam Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Macans Plastoform Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 836/560/017135.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Macans Plastoform Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gujarat Weave Sack Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 722/560/035967.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gujarat Weave Sack Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kleen Drums Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 733/560/046093.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kleen Drums Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganesh Conplast (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 133/560/089635.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganesh Conplast (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Associated Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 296/560/034427.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Associated Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Radheshyam Plastics and Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 278/560/023903.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Radheshyam Plastics and Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bombay House-Hold and Industrial Plastics  
Manufacturing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 525/560/017103.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bombay House-Hold and Industrial Plastics Manufacturing Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ajit Kumar Plasto Fabric and Packaging  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 272/560/023892.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ajit Kumar Plasto Fabric and Packaging Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Laxman's Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 716/560/035102.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Laxman's Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjiv Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 550/560/014591.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanjiv Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Devidayal Plastiknit Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 672/560/034581.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Devidayal Plastiknit Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Somnath Hi Tech Polymers Industries  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 623/560/049824.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Somnath Hi Tech Polymers Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Interlink Plastics and Fibres Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 540/560/016904.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Interlink Plastics and Fibres Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saraswati Biotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 48/560/129015.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saraswati Biotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Flamingo Tapes Adhesives Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 803/560/117626.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flamingo Tapes Adhesives Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Unidyne Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 783/560/116168.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unidyne Agrotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Compulan Systems and Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 778/560/111024.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Compulan Systems and Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Farm Support Services (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 764/560/107022.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Farm Support Services (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Greenlife Chem-Synthesis Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 830/560/095230.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Greenlife Chem-Synthesis Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Curamin Pharma Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 20/560/118282.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Curamin Pharma Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alabhi Pharma and Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 10/560/117346.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alabhi Pharma and Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jindal Tea Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 827/560/093891.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jindal Tea Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sabari Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 824/560/092990.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sabari Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nimbus Enterprises Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 734/560/099224.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nimbus Enterprises Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surya Fertilizers Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 714/560/095009.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surya Fertilizers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khandesh Pesticides Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 168/560/014122.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khandesh Pesticides Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amit Fertipest Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 112/560/013832.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amit Fertipest Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Novel Thermoplast Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 262/560/023787.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Novel Thermoplast Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prabhu Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 632/560/049819.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prabhu Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Punjab Plastic Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 158/560/018186.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Punjab Plastic Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rexo-Plast Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 243/560/024200.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rexo-Plast Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Naguya Polyplast Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 250/560/023761.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Naguya Polyplast Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nagpur Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 236/560/023408.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nagpur Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poly Thermosets Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 197/560/019906.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Poly Thermosets Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lazeem Health Care Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 355/560/121248.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lazeem Health Care Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vishwa Suraksha Pharmaceuticals Company  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 483/560/124531.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishwa Suraksha Pharmaceuticals Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sea Hawk Engineering and Construction  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 551/560/057381.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sea Hawk Engineering and Construction Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Inventor Pest Control and House Keeping  
Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 280/560/048294.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Inventor Pest Control and House Keeping Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nivtej Fragrances and Flavours Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 466/560/124234.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nivtej Fragrances and Flavours Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indai Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 24/560/118893.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indai Agro Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Venkateshwara Rasayan Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 327/560/121118.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venkateshwara Rasayan Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Qayam Petroleum Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 31/560/101743.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Qayam Petroleum Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manol Insulating Oils Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 455/560/110565.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manol Insulating Oils Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vintex Cementiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 128/560/051371.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vintex Cementiles Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Virgin Petroleum Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 334/560/128325.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Virgin Petroleum Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manpasand Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 4/560/062951.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manpasand Packaging Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poly Lube (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 327/560/127588.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Poly Lube (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Andhra Lease Fin and Investment Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 739/560/105982.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Andhra Lease Fin and Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vasanti Chemicals and Consultants Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 681/560/047692.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vasanti Chemicals and Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pennsylvannia Petroleum Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 79/560/108022.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pennsylvannia Petroleum Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saikrupa Herbalist Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 695/560/120806.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saikrupa Herbalist Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Orion Advisors Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 24/560/115021.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orion Advisors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Krown Petroleum Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 502/560/122829.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krown Petroleum Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kochi, the 26th November 2008

No. u/s 560(3)/SM/ROC-Ekm/15988/2008.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company   |
|---------|-------------|---|
| 1       | 2           | 3   |
| 1.      | 15038       | M/s. Ge-Stalt Marketing Private Limited                       |
| 2.      | 15045       | M/s. Brahmasree Foods Private Limited                         |
| 3.      | 15046       | M/s. Abad Foods Private Limited                               |
| 4.      | 15047       | M/s. Digivision Infotech Private Limited                      |
| 5.      | 15051       | M/s. Hiflag Marketing Private Limited                         |
| 6.      | 15060       | M/s. Turnkey Customer Relationship Management Private Limited |
| 7.      | 15070       | M/s. Reallife Chits Private Limited                           |
| 8.      | 15072       | M/s. Orchid Holidays Private Limited                          |
| 9.      | 15080       | M/s. Hafees Garments Private Limited                          |
| 10.     | 15087       | M/s. Kannikat Traders Private Limited                         |
| 11.     | 15093       | M/s. Illumanatti Infoways Private Limited                     |
| 12.     | 15095       | M/s. Agri-Horticultural Farm Private Limited                  |
| 13.     | 15097       | M/s. Avrosys Information Technologies Private Limited         |
| 14.     | 15104       | M/s. Talent IT Solutions Private Limited                      |
| 15.     | 15106       | M/s. Thottungal Construction Company Private Limited          |

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Kalyanray Petrochem Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 484/560/121751.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Kalyanray Petrochem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rainbow Cylinders Private Limited

Mumbai-400 002, the 25th August 2008

No. 464/560/114917.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rainbow Cylinders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

| 1   | 2     | 3   |
|-----|-------|---|
| 16. | 15118 | M/s. Dr. Raman Menons Histopathology and Clinical Lab Private Limited |
| 17. | 15122 | M/s. Traficon Logistics Private Limited                               |
| 18. | 15128 | M/s. Cochin Sumangaly Jewellery Private Limited                       |
| 19. | 15138 | M/s. Amruthapanchakshara Kuries Private Limited                       |
| 20. | 15145 | M/s. Citizen Motors Private Limited                                   |
| 21. | 15151 | M/s. EL Tech Computers and E-Commerce Centre Private Limited          |
| 22. | 15155 | M/s. Moon Palace Hotels and Marketing Private Limited                 |
| 23. | 15162 | M/s. Pentakon India Systems and Solutions Private Limited             |
| 24. | 15164 | M/s. Cyberzoom Technologies and Marketing Private Limited             |
| 25. | 15192 | M/s. Nusrathul Anam Travels Private Limited                           |
| 26. | 15195 | M/s. Southernhimalaya Chitties Private Limited                        |
| 27. | 15197 | M/s. S and D Condiments Private Limited                               |
| 28. | 15202 | M/s. Sandbar Indigenous Health Care Private Limited                   |
| 29. | 15210 | M/s. Vandanmedu Foods and Trades Private Limited                      |
| 30. | 15213 | M/s. City Systems India Private Limited                               |
| 31. | 15214 | M/s. M. J. C. Trading Company Private Limited                         |
| 32. | 15216 | M/s. Bentley Motors Private Limited                                   |
| 33. | 15218 | M/s. Kumar Spices Trade and Export Company Private Limited            |
| 34. | 15222 | M/s. Irity Chits Private Limited                                      |
| 35. | 15223 | M/s. Inamco Impex Private Limited                                     |
| 36. | 15231 | M/s. Prognosys Technologies Private Limited                           |

K. SREEKUMAR  
Asstt. Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kochi, the 27th November 2008

No. M/S 560(5)/SM/ROC-Ekm/15984/2008.--Notice is  
hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that the name of the following  
companies have this day been struck off the register and  
the said companies are dissolved :--

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company                                    |
|---------|-------------|--|
| 1       | 2           | 3  |
| 1.      | 14440       | M/s. Matrix Automotives Private Limited                |
| 2.      | 14449       | M/s. Cherthala Kuries Private Limited                  |
| 3.      | 14458       | M/s. Quorum Network Private Limited                    |
| 4.      | 14463       | M/s. Netpro Cyber Solutions Private Limited            |
| 5.      | 14464       | M/s. Venus Bone Mill Private Limited                   |
| 6.      | 14469       | M/s. Rohini Global Merchandise Private Limited         |
| 7.      | 14474       | M/s. Kairali Import and Export Company Private Limited |
| 8.      | 14480       | M/s. Knet IT Com Private Limited                       |
| 9.      | 14497       | M/s. Byte Kids Private Limited                         |
| 10.     | 14498       | M/s. ST Rose Vehicles Private Limited                  |
| 11.     | 14507       | M/s. Uppala Infotech Solutions Private Limited         |
| 12.     | 14514       | M/s. Sea Chart Logistics Private Limited               |
| 13.     | 14518       | M/s. Moolans Infotech Private Limited                  |
| 14.     | 14520       | M/s. Fep Marketing Private Limited                     |
| 15.     | 14525       | M/s. Sooryamanasm Estates and Farms Private Limited    |
| 16.     | 14526       | M/s. Penta Comp and Security Vision Private Limited    |
| 17.     | 14533       | M/s. Innaz Motors and Services Private Limited         |
| 18.     | 14534       | M/s. Fortune Career Options Private Limited            |
| 19.     | 14548       | M/s. Info Capitals Private Limited                     |
| 20.     | 14570       | M/s. Trios Exports Private Limited                     |
| 21.     | 14572       | M/s. Progressive Network Connections Private Limited   |
| 22.     | 14577       | M/s. Trice Shipping South Private Limited              |
| 23.     | 14581       | M/s. Trenders Kuries Private Limited                   |
| 24.     | 14585       | M/s. Splash Imports India Private Limited              |
| 25.     | 14586       | M/s. Devipriya Kuries Private Limited                  |
| 26.     | 14593       | M/s. Kalady Commercial Syndicate Chits Private Limited |
| 27.     | 14594       | M/s. Infologix Integrated Private Limited              |

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753 001, the 4th December 2008

No. ROC/Sec. 560(5)/3349.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company                                      |
|---------|-------------|--|
| 1       | 2           | 3  |
| 1.      | 15-000439   | M/s. Rourkela Proofing Corporation Limited               |
| 2.      | 15-003208   | M/s. Visual Link Private Limited                         |
| 3.      | 15-003237   | M/s. Pritam Enterpriser Private Limited                  |
| 4.      | 15-003383   | M/s. Kalinga Agro Economy Limited                        |
| 5.      | 15-003491   | M/s. General Engineering and Scientific Co. Limited      |
| 6.      | 15-003501   | M/s. Dharitree Agro India Limited                        |
| 7.      | 15-003580   | M/s. Maa Bharosa Finance and Investment (India) Limited  |
| 8.      | 15-004212   | M/s. Safty Point Private Limited                         |
| 9.      | 15-004227   | M/s. Ganapati Iron and Steel Company Limited             |
| 10.     | 15-004324   | M/s. Naidu Associates Private Limited                    |
| 11.     | 15-004831   | M/s. Baba Flour Mills Private Limited                    |
| 12.     | 15-005568   | M/s. Indravati Construction and Builders Private Limited |
| 13.     | 15-005846   | M/s. Bisra Cold Storage Private Limited                  |
| 14.     | 15-006022   | M/s. Seraphic Systems Private Limited                    |
| 15.     | 15-007757   | M/s. Elite Club Limited                                  |
| 16.     | 15-008338   | M/s. R and R Sankalp Marketing Private Limited           |
| 17.     | 15-008699   | M/s. Eastern Cold Chains Limited                         |

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Bangalore-560 034, the 20th November 2008

No. ROCB/560(3)/TA/JK/AMS/2008.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company  |
|---------|-------------|--|
| 1       | 2           | 3  |
| 1.      | 29459       | M/s. Logicom India Services Private Limited                |
| 2.      | 23036       | M/s. Re-Realise International Technologies Private Limited |
| 3.      | 29050       | M/s. Resource Management Consultants Private Limited       |
| 4.      | 34364       | M/s. Megana Tech Computer Private Limited                  |
| 5.      | 18503       | M/s. Adhavan Polysacks Limited                             |
| 6.      | 34258       | M/s. Stratfin Business Solutions Private Limited           |
| 7.      | 34420       | M/s. Ycordinate HR Consulting Services Private Limited     |
| 8.      | 34812       | M/s. Informed Advisers Private Limited                     |
| 9.      | 34466       | M/s. Krishma Diamonds Private Limited                      |
| 10.     | 34803       | M/s. Samruddhi Life Care Services Private Limited          |
| 11.     | 19293       | M/s. Miracle Farms Limited                                 |
| 12.     | 32813       | M/s. Amaze Communication Private Limited                   |

A. M. SRIDHRAN  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka